



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30—अक्तूबर 6, 2006 (आश्विन 8, 1928)  
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30—OCTOBER 6, 2006 (ASVINA 8, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2006

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

सं. 475, दिनांक 01 सितम्बर 2006—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मई, 2006 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2006-सी एस-2 के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप कृषि और सहकारी विभाग के संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री धर्म वीर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 07 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर 2006 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

वी. सरस्वती,  
उप सचिव

सेना शाखा

सं. 476, दिनांक 6 सितम्बर 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना (विशेष आयोग)

(ले. के पद पर 12 दिसम्बर 1998 से)

(i) श्री धर्म वीर को तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकारी नहीं होगा।

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र जो कि 21 अगस्त 1999 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है:—

सं. 9511607 एच हवलदार राजीवन जी वी (एससी-00044एक्स),  
इंजीनियर्स ज्येष्ठता (6388055 एन), हवलदार प्रदीप कुमार के वी

(एससी-00043पी), इन्फैन्ट्री के नीचे और (13751666एन), हवलदार भवानी सिंह (एससी-00045ए), इन्फैन्ट्री के उपर प्रकाशित किया जाए।

चन्द्र शेखर  
ले. कर्नल  
एएमएस-8बी

वायु शाखा

नई दिल्ली

सं. 477, दिनांक 06 सितम्बर 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थाई कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करते हैं। यह अफसर स्थाई कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर उदय प्रताप सिंह (27948), प्रवीण दिक्षित (27950), अमित अमरनाथ धोपावकर (27951), बी विजयराधवन (27952), अविनाश भारद्वाज (27953), चेतन शर्मा (27954), सौरभ रघुवंशी (27955), अरूण कुमार सिंह (27956), प्रवीण एस सारथी (27957), कुणाल कुमरा (27958), पवार निशांत शंतराम (27959), भास्कर आरूणी (27960), अनिल यादव (27961), सुरेश धीर (27962), मुरलीधरन धलन (27963), शैलेन्द्र कुमार सिंह (27964), कपिल राजपूत (27965), साहिल (27966), जगदीप सिंह (27967), एन अभिषेक (27968), अरूण देशवाल (27969), यासिर फारूकी (27970), अक्षय कुमार विज (27971), शैलेन्द्र सिंह (27972), विनय कुमार (27973), मनीष उमेश शर्मा (27975), मनीष कुमार सिंह (27976), नवीन कुमार तिवारी (27977), गुरिन्द्र सिंह (27978), संतोष कुमार मिश्रा (27979), महिपाल सिंह सांगवान (27980), अभिनंदन वर्तमान (27981), अमित शर्मा (27982), शिशिर अरोड़ा (27983), सुहाष पर्ल हार्दो गोरे (27985), गौरव चतुर्वेदी (27986), वरूण सिंह (27987), विभूदत्ता एस के जेनामानी (27988), आशिष कुमार डोगरा (27989), क्षेत्रीमायुम श्यामानंदा सिंह (27990), विवेक मित्तल (27991), रोहि राय (27992), राहुल शर्मा (27993), एम श्री विगनेश (27994), करण अरहा (27995), आदित्य सिंह पवार (27996), अंकुर डगर (27997), जसप्रीत सिंह संधू (27998), अरविंद कुमार रोप्सवाल (27999), अंकुर सक्सेना (28000), विवेक द्विवेदी (28001), अभिमन्यु सिंह (28002), नितिन नागरकोटि (28003), अविनाश महापात्रा (28004), अमित रंजन (28005), सिद्धार्थ अग्रवाल (28006), रॉद चट्टोपाध्याय (28007), हर्षित सिन्हा (28009), दिनेश पंकज (28010), टी जे रंजित (28011), यक्षेन्द्र सिंह पनवार (28012), संदीप कुमार प्रधान (28013), ऋन्मनीत सिंह विधी (28015), अमित विकास मालपुरे (28016), लक्ष्यवीर (28017), अभिमन्यु सिंह (28019), अंशुल दवे (28022), रजत देवेन्द्र गुप्ता (28024), खैरनार महेश प्रदीप (28026), चंचल किशोर (28027), समीप निनहवन (28028), प्रमोद

कुमार एन (28029), शरद सिरोही (28030), राहुल वर्मा (28031), जसमीत सिंह (28032), एस मुरुगा भारथी (28033), सुशील यादव (28034), राजीव डोगरा (28035), आरचीट कपूर (28036), दिनांक 19 जून 2004 से।

एस श्रीवास्तव  
विंग कमांडर  
जेडीपीओ-3(डी)

थल सेना विभाग

सं. 478, दिनांक 01 सितम्बर 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशंड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं:—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर सतनाम सिंह (जेसी-174911ए), पहले पंजाब रेजीमेंट, 09 जुलाई 2005

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार चन्द्र पाल (जेसी-412173एक्स), पहले पैराशूट रेजीमेंट, 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-171866एन), पहले राज राईफल्स, 08 अक्टूबर 2005

सूबेदार बंसी लाल (जेसी-194694डब्ल्यू), पहले महार रेजीमेंट, 08 अक्टूबर 2005

सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-238361एम), पहले आर्मड कोर, 08 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार रामेश्वर प्रसाद (जेसी-841816ए), पहले भारतीय नौसेना, 05 मार्च 2005

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-211126के), पहले सिख एल आई, 09 जुलाई 2005

नायब सूबेदार कुमार छेत्री (जेसी-263496वाई), पहले आर्टिलरी, 09 जुलाई 2005

नायब सूबेदार बेडो रावा साहेब (जेसी-204605एच), पहले मैक इन्फैन्ट्री रेजीमेंट, 08 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह ठाकुर (जेसी-518961एम), पहले डोगरा रेजीमेंट, 08 अक्टूबर 2005

टी. के. एम. पिल्ले  
अवर सचिव

## सेना शाखा

सं. 479, दिनांक 4 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

## नियमित सेना

## तोपखाना रेजिमेन्ट

## सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

- नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-266234एन), 14 मई 2005
- नायब सूबेदार उत्तम कुमार मलिक (जेसी-264585के), 29 मई 2005
- नायब सूबेदार दक्खी नारांजन क्षेत्रपाल (जेसी-261545एक्स), 02 जून 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार थॉमस एन डी (जेसी-262283वाई), 04 जुलाई 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार नरवाडे रामराव गणपती (जेसी-262672वाई), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार गगन सिंह (जेसी-263227एम), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-263271डब्ल्यू), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद (जेसी-263505पी), 06 जून 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार तिलक मोहनन नायर टी आर (जेसी-263740एन), 06 जून 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार मुरलीधरन बी (जेसी-263832एल), 07 जुलाई 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार ए आर जॉयप्पा (जेसी-264110ए), 06 जून 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार विंध्या वासिनी प्रसाद (जेसी-264219ए), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार सत्य राम सिंह (जेसी-264197एस), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार टी पलथासर (जेसी-264342वाई), 17 जुलाई 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार विजय बहादुर (जेसी-265017एल), 09 जुलाई 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार सुरत सिंह (जेसी-265585डब्ल्यू), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-265532एक्स), 05 जून 2005/01 जून 2005\*
- नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-266311एक्स), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार जागीर सिंह (जेसी-266456एच), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार कैलास चन्द (जेसी-266552ए), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-266610डब्ल्यू), 22 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

- नायब सूबेदार नीरज झा (जेसी-262300एन), 10 जुलाई 2005/10 जून 2005
- नायब सूबेदार गुरुमुख सिंह (जेसी-261479ए), 13 जुलाई 2005/15 जून 2005\*
- नायब सूबेदार मोहन कुमार टी के (जेसी-260411एस), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार हरी नन्दन सिंह (जेसी-262456एल), 11 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-262743पी), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार जगदीश सिंह खातकर (जेसी-262920के), 04 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार मानिक चन्द्र शाह (जेसी-263791एफ), 27 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-263846ए), 08 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार रामा शंकर त्रिपाठी (जेसी-264813एफ), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार तिलेश्वर गोगई (जेसी-264022के), 05 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार लाल सिंह चौहान (जेसी-264518वाई), 12 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार गोविन्द बी जी (जेसी-264420एल), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार राज नारायण ओझा (जेसी-264642ए), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-264322एल), 01 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार दुगेपोगु सैमसन (जेसी-264766पी), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-264681वाई), 05 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005\*
- नायब सूबेदार सुदेश कुमार (जेसी-264528एच), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार चौगुले बाबूराव राव (जेसी-262129एल), 01 जुलाई 2005

## नायब सूबेदार के पद में

- बी.एच.एम. सत्य देव यादव (सं. 14379550डब्ल्यू अब जेसी-269096एच), 13 अप्रैल 2006/29 नवम्बर 2005\*
- हवलदार इन्दर पाल सिंह परमार (सं. 14476366पी अब जेसी-269097एल), 14 फरवरी 2006/29 नवम्बर 2005\*
- हवलदार पञ्चोध्यमन बी (सं. 14491501पी अब जेसी-269098एन), 15 फरवरी 2006/30 नवम्बर 2005\*
- हवलदार नाहर सिंह (सं. 14369914के अब जेसी-269099डब्ल्यू), 08 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

हवलदार राधे श्याम सिंह (सं. 14363714एक्स अब जेसी-269100ए),  
20 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

हवलदार प्रल्हाद सिन्हा (सं. 14478672एच अब जेसी-269101एच),  
08 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006\*

हवलदार सुशील कुमार मिश्रा (सं. 14351384एक्स अब  
जेसी-269102एल), 28 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006\*

आर.एच.एम. राम प्रवेश प्रसाद (सं. 14489512एच अब  
जेसी-269103एन), 22 मार्च 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार हरबन्स सिंह (सं. 14479623एम अब जेसी-269104डब्ल्यू),  
10 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006\*

आर.एच.एम. राव मोहन के (सं. 14489931ए अब जेसी-269105वाई),  
08 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार मंगल सिंह (सं. 3382667एम अब जेसी-269106एफ), 11  
फरवरी 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार निलम सिंह (सं. 14478534एफ अब जेसी-269107के),  
04 मार्च 2006/09 फरवरी 2006\*

बी.एच.एम. तिरमल सिंह (सं. 14362134डब्ल्यू अब  
जेसी-269108एम), 22 मार्च 2006/10 फरवरी 2006\*

हवलदार घाडगे विश्वास रवाशाबा (सं. 14368704एक्स अब  
जेसी-269109पी), 25 मार्च 2006/01 मार्च 2006\*

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 14357933एच अब जेसी-269110के),  
01 मार्च 2006

हवलदार अखन कुमार सिंह (सं. 14478466वाई अब  
जेसी-269111एम), 01 मई 2006

बी.एच.एम. अमर सिंह (सं. 14477764एच अब जेसी-269024वाई),  
10 जनवरी 2006/01 अगस्त 2005\*

बी.एच.एम. निकम बालु साम्बा (सं. 14480541डब्ल्यू अब  
जेसी-269025एफ), 22 फरवरी 2006/21 नवम्बर 2005\*

हवलदार गनेशी लाल (सं. 14366626एम अब जेसी-269026के),  
27 फरवरी 2006/06 दिसम्बर 2005\*

हवलदार सुगरीव यादव (सं. 14482814एम अब जेसी-269027एम),  
12 दिसम्बर 2005

आर.एच.एम. सूरजीत सिंह (सं. 14483409एफ अब  
जेसी-269028पी), 19 जनवरी 2006/14 दिसम्बर 2005\*

बी.एच.एम. जय किशोर झा (सं. 14477711के अब  
जेसी-269029एक्स), 27 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006\*

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 14398281के अब जेसी-269030एम),  
12 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006\*

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 15113962के अब जेसी-269031पी), 19  
मार्च 2006/01 जनवरी 2006\*

हवलदार चन्द्र शेकरन (सं. 14371945एच अब जेसी-269032एक्स),  
15 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार जयमंगल यादव (सं. 15101207एन अब जेसी-269033ए),  
11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 14478130वाई अब जेसी-269034एच),  
01 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार दुल्ला श्रीनिवासा राव (सं. 15113057पी अब  
जेसी-269035एल), 27 मार्च 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 14370480पी अब जेसी-269036एन), 01  
मार्च 2006/01 फरवरी 2006\*

हवलदार नलकर ज्ञानेश्वर रामदास (सं. 14391773ए अब  
जेसी-269037डब्ल्यू), 04 मार्च 2006/17 फरवरी 2006\*

हवलदार श्याम कुमार (सं. 14367488एच अब जेसी-269038वाई),  
01 मार्च 2006

बी.एच.एम. प्रताप सिंह (सं. 14479959एन अब जेसी-269039एफ),  
01 अप्रैल 2006

(\* ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सटैंटिव सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद में

सूबेदार चंद्रपाल सिंह (जेसी-296151एक्स), 02 जून 2006/01 मई  
2006\*

सूबेदार पार्थीबन एन (जेसी-256137एच), 01 जून 2006

सूबेदार राम सनेही (जेसी-296731एन), 01 जुलाई 2006

सब्सटैंटिव सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के पद में

सूबेदार उमेश चंद्र त्रिपाठी (जेसी-120404वाई), 01 जुलाई 2006

सब्सटैंटिव सूबेदार (जी.डी.) के पद में

नायब सूबेदार महेश चंदर (जेसी-298263डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2006/01  
जनवरी 2006\*

नायब सूबेदार सत्यवीर यादव (जेसी-297981ए), 06 फरवरी 2006/01  
फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार कमलापुरे सूर्यकांत रामचंद्र (जेसी-298511एफ), 29  
जून 2006/01 फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार राज रूप (जेसी-297821ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार धर्मपाल यादव (जेसी-297920एच), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सुरैण सिंह (जेसी-298359वाई), 28 जून 2006/01 अप्रैल  
2006\*

नायब सूबेदार शिवमुनी सिंह (जेसी-298186एम), 03 जुलाई 2006/15  
अप्रैल 2006\*

नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जेसी-298677एच), 24 मई 2006/01 मई 2006×

नायब सूबेदार रविंद्रन ओ के (जेसी-298003एल), 01 जून 2006/13 मई 2006×

नायब सूबेदार सुंदारेसन बी (जेसी-298368ए), 02 जून 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार एम अलफोन्स (जेसी-298418ए), 13 जून 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार राम बोध (जेसी-298775एच), 10 जून 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार सी सामन (जेसी-297207एल), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार राजेंद्रन के (जेसी-298459के), 08 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006×

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

नायब सूबेदार राम सेवक सिंह (जेसी-298789एच), 12 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार बृज राज (जेसी-297731वाई), 27 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार बृज भूषण शुक्ला (जेसी-297776वाई), 01 मई 2006

नायब सूबेदार सवरन सिंह (जेसी-297837एल), 15 मई 2006/01 मई 2006×

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-297839डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार मोहमद असलम (जेसी-297888वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार भागीरथी सुबुधी (जेसी-297889एफ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार जी बुवनेसवरन (जेसी-297890डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम कृपानंद झा (सं. 14377439एन अब जेसी-299544वाई), 22 मई 2006/01 मार्च 2006×

बीएचएम प्रताप सिंह (सं. 14377402एम अब जेसी-299545एफ), 10 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

आरएचएम पाटिल देवत वसंतराव (सं. 14367561डब्ल्यू अब जेसी-299546के), 19 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

बीएचएम बालासुब्रमनियन आर (सं. 14371487एक्स अब जेसी-299547एम), 22 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

बीएचएम कुमार पाल सिंह (सं. 14365768एक्स अब जेसी-299548पी), 26 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

बीएचएम संकठा प्रसाद (सं. 14375443एक्स अब जेसी-299549एक्स), 08 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

हवलदार बेजामीन वाई (सं. 14489799एल अब जेसी-299550एम), 12 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

बीएचएम धरम राज सिंह (सं. 14486825डब्ल्यू अब जेसी-299551पी), 17 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

आरएचएम रघुबीर सिंह (सं. 14359178एच अब जेसी-299552एक्स), 27 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

हवलदार अमरेंद्र चौधरी (सं. 14379776एफ अब जेसी-299553ए), 31 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

हवलदार रामप्पा एन (सं. 14378166एच अब जेसी-299554एच), 03 जून 2006/01 अप्रैल 2006×

बीएचएम कृष्णा प्रसाद साह (सं. 14365262वाई अब जेसी-299555एल), 15 जून 2006/01 अप्रैल 2006×

बीएचएम रमेश (सं. 14375992एक्स अब जेसी-299556एन), 10 जून 2006/01 मई 2006×

हवलदार राम कुमार (सं. 14361772एच अब जेसी-299557डब्ल्यू), 01 जून 2006

बीएचएम रमेश चंद (सं. 14361091ए अब जेसी-299558वाई), 01 जून 2006

बीएचएम श्याम लाल यादव (सं. 14383643एच अब जेसी-299559एफ), 02 जून 2006/01 जून 2006×

हवलदार सुन्नमनि सी (सं. 14371408के अब जेसी-299560डब्ल्यू), 02 जून 2006/01 जून 2006×

बीएचएम दिनेश कुमार सिंह (सं. 14389861एक्स अब जेसी-299561वाई), 11 जून 2006/01 जून 2006×

बीएचएम शिव लाल पासवान (सं. 14379568एम अब जेसी-299562एफ), 13 जून 2006/01 जून 2006×

हवलदार राम राज सिंह (सं. 14368954वाई अब जेसी-299563के), 13 जून 2006/01 जून 2006×

बीएचएम मुनुसामी आर (सं. 15101264पी अब जेसी-299564एम), 24 जून 2006/13 मई 2006×

आरएचएम कमल कर्माकर (सं. 14351830एन अब जेसी-299565पी), 18 जून 2006/22 मई 2006×

बीएचएम ए माधीवनन (सं. 14372896एक्स अब जेसी-299566एक्स), 01 जून 2006

आरएचएम अपूर्वा कुमार सील (सं. 14385487एच अब जेसी-299567ए), 01 जून 2006

बीएचएम के नंदनन पिल्लै (सं. 14377859एन अब जेसी-299568एच), 02 जून 2006/01 जून 2006×

बीएचएम स्वर्ण सिंह (सं. 14367265एल अब जेसी-299569एल), 02 जून 2006/01 जून 2006×

हवलदार चरनजीत सिंह (सं. 14387634वाई अब जेसी-299570ए), 02 जून 2006/01 जून 2006×

हवलदार राजन पी (सं. 14375274एफ अब जेसी-299571एच), 30 जून 2006/01 जून 2006×

हवलदार मुन्नी लाल (सं. 14364390के अब जेसी-299572एल), 27 जून 2006/20 जून 2006×

हवलदार गंगाधर सिंह (सं. 14374438ए अब जेसी-299573एन), 01 जुलाई 2006

बीएचएम इगनेश लाकरा (सं. 14468818एक्स अब जेसी-299574डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

आरएचएम आनंद सिंह (सं. 14362771एम अब जेसी-299575वाई), 02 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006×

बीएचएम किरन चंद्र कलीता (सं. 14368680वाई अब जेसी-299576एफ), 02 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006×

बीएचएम पोन्नू सामी (सं. 14374355पी अब जेसी-299577के), 03 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006×

×(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

कोर ऑफ सिगनल्स

स्थाई सूबेदार मेजर (वाई ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार ऋषि प्रकाश (जेसी-368509के), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-368512के), 01 अप्रैल 2006

स्थाई सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-224682वाई), 08 फरवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार गोविन्द सिंह चौहान (जेसी-367093एल), 01 मार्च 2006

सूबेदार उन्नीकृष्णन वी (जेसी-367096वाई), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-367097एफ), 03 अप्रैल 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-367102पी), 01 मई 2006

सूबेदार सेधुमाधवन ए पी (जेसी-367106एक्स), 07 मई 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार हिसामुद्दीन खान (जेसी-367110ए), 01 मई 2006

सूबेदार चिरंजी प्रसाद सकलानी (जेसी-367121एम), 01 मई 2006

सूबेदार सिया नंद (जेसी-367249एक्स), 01 मई 2006

स्थाई सूबेदार मेजर (ओ पी साईफर) के रैंक में

सूबेदार त्रिलोकी नाथ उपाध्याय (जेसी-368429एम), 01 अप्रैल 2006

स्थाई सूबेदार मेजर (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-368115एल), 01 मार्च 2006

स्थाई सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार छोटे प्रसाद (जेसी-368116एन), 01 मई 2006

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार महेन्द्र प्रताप सिंह राठौर (जेसी-370456पी), 08 फरवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार श्याम सुन्दर (जेसी-370615एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मिसाल साहाजी गोविन्द (जेसी-370651एम), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार एम डी अब्दुल वाहेब ए खान (जेसी-370655एच), 08 अप्रैल 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार जयदेव सरकार (जेसी-829026वाई), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार सेखर महता (जेसी-370677एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार एच रजा (जेसी-370682एम), 01 मई 2006

एस. पी. शर्मा  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 480, दिनांक 1 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार रंजीत सिंह राना (जेसी-205720पी), 01 मई 2006

सूबेदार गुन्जा सिंह गुरुंग (जेसी-133365के), 01 मई 2006

सूबेदार लिल बहादुर गुरुंग (जेसी-161021एफ), 01 मई 2006

सूबेदार रविन्दर सिंह (जेसी-152798डब्ल्यू), 01 मई 2006

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जेसी-148490एल), 01 मई 2006

नायब सूबेदार जयदेव सिंह (जेसी-840896डब्ल्यू), 01 मई 2006

नायब सूबेदार राम नारायण पाल (जेसी-840912एच), 01 मई 2006

नायब सूबेदार मुनेश्वर राम (जेसी-840913एल), 01 मई 2006

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह लनोह (जेसी-211314एल), 01 मई 2006

टी. के. एम. पिल्लै  
अवर सचिव

-----

सं. 481, दिनांक 5 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

यू बी चिटनिस (एमआर-03932एक्स), 20 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14 मार्च 2005 से दी जाती है।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) रैंक में

एम डे (एमआर-04421ए), 28 जुलाई 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जनवरी 2004 से दी जाती है।

जे जी रिसबुड (एमआर-04495पी), 16 अगस्त 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 मार्च 2004 से दी जाती है।

के एल मनचन्दा (एमआर-04937एच), 09 जनवरी 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18 मार्च 2004 से दी जाती है।

जे एन लाखे (एमआर-04505एन), 01 मार्च 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 मार्च 2004 से दी जाती है।

महेन्द्रा यादव (एमआर-04557के), 14 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।

रवजोत सिंह (एमआर-05166एल), 10 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 अप्रैल 2005 से दी जाती है।

रवि काले (एमआर-03970एन), 21 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2005 से दी जाती है।

सी एस जोशी (एमआर-04654एफ), 21 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 मई 2005 से दी जाती है।

मनमोहन सिंह (एमआर-04350के), 03 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जून 2005 से दी जाती है।

वी भास्करन (एमआर-04017एल), 23 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है।

एम डी वैकटेश (एमआर-04139पी), 29 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जुलाई 2005 से दी जाती है।

के आर एम राव (एमआर-04059एक्स), 05 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13 अगस्त 2005 से दी जाती है।

शरत जोहरी (एमआर-05092एफ), 24 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14 अगस्त 2005 से दी जाती है।

एस एस परमार (एमआर-04945एफ), 02 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25 अगस्त 2005 से दी जाती है।

के एम राय (एमआर-03977एक्स), 27 जनवरी 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 अगस्त 2005 से दी जाती है।

एस के कठपालिया (एमआर-03978ए), 12 नवम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 31 अगस्त 2005 से दी जाती है।

के के लाहिरी (एमआर-03980एक्स), 04 मार्च 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 31 अगस्त 2005 से दी जाती है।

आर डी वाधवा (एमआर-03983एल), 07 नवम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

एच एस भाटोए (एमआर-03988के), 24 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

दीपक कालरा (एमआर-03989एम), 03 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

ए के दास (एमआर-03992एम), 06 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

बिपिन पुरी (एमआर-03993पी), 27 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

अनुपम शाहा (एमआर-03994एक्स), 09 जनवरी 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 03 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

ए आर गुप्ता (एमआर-03997एल), 20 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 04 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

आर गौरीशंकर (एमआर-03998एन), 04 नवम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 04 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

वाई के अरोड़ा (एमआर-05230एक्स), 27 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

राजीव शर्मा (एमआर-04944वाई), 14 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

पवन कपूर (एमआर-04049एन), 19 दिसम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

अजोय माहेन (एमआर-04054वाई), 01 नवम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

श्रीमती एस आर बी सिंह (एमआर-05168डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

एम के मण्डल (एमआर-05676एम), 30 मार्च 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

एम गांगुली (एमआर-04141एम), 28 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

संजय चौपड़ा (एमआर-04142पी), 24 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

सी एस नारायणन (एमआर-04173पी), 24 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

हर्ष कुमार (एमआर-04148डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

एस पी एस कोचर (एमआर-04152वाई), 05 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।

राजवीर सिंह (एमआर-04153एफ), 21 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।

ए दत्ता (एमआर-04155एम), 15 अक्टूबर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 03 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।

पी के दास (एमआर-04161ए), 25 नवम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।

पी के सिंह (एमआर-04164एन), 02 फरवरी 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 13 नवम्बर 2005 से दी जाती है।

एस भट्टाचार्य (एमआर-04659ए), 04 जनवरी 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 14 नवम्बर 2005 से दी जाती है।

एन एस मनि (एमआर-04713एच), 03 मार्च 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 27 नवम्बर 2005 से दी जाती है।

श्रीमती राखी सिंह (एमआर-05622एल), 19 दिसम्बर 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।

श्रीमती शशि डंगवाल (एमआर-05800एच), 01 जनवरी 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 05 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।

एफ बी भोट (एमआर-03867एच), 07 फरवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।

राजेश कामरान  
ब्रिगेडियर

उप न. नि. स. से. चि. से. (का.)

सं. 482, दिनांक 6 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. से कैप्टन

आई सी नं., नाम व आर्म

64954 रविन्द्र नेगी, ईएमई

64955 कपिल सनावर, ईएमई

64956 मनदीप सिंह निज्जर, इंजीनियर्स

64958 राजेश शर्मा, सिग्नल्स

64959 दिनेश सिंह महेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स

64960 विक्रम खुर्मी, इंजीनियर्स

64962 कुलकर्णी अजीत विजय, ईएमई

64963 गौरव अग्रवाल, ईएमई

64964 विनोद कुमार विजयन, इंजीनियर्स

64965 शैलेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स

64966 मिश्रा अखिलेश कन्हैयालाल, इंजीनियर्स

--06 नवम्बर 2002

53881 अविनाश शर्मा, एम एफ

--10 जून 2000

60361 विकास वर्मा, एडी आर्टी

--09 दिसम्बर 2004

58576 पटनायकुनि नागराज, आईसी

--12 दिसम्बर 2002

55521 एम एम बाबू, इंजीनियर्स

--09 मई 1999

56142 राजेश श्रीवास्तव, एडी आर्टी,

--05 मई 2003

56317 नरेश कुमार, इंजीनियर्स

--07 नवम्बर 2001

62718 राणा आर बीर सिंह थालीवाल, इन्फैन्ट्री

--16 दिसम्बर 2004

63693 रवि कुमार त्रिपाठी, इंजीनियर्स

--13 दिसम्बर 2005

64744 केशव सिंह जसरोटिया, ईएमई

64753 शैलेश बडोला, सिग्नल्स

--16 दिसम्बर 2004



64819 निशित मिश्रा, ईएमई	--08 मई 2002	65000 देवराज भट्टाचार्या, इन्फैन्ट्री
64923 प्रदीप मुखर्जी, इंजीनियर्स	--04 नवम्बर 2004	65001 आलोक शुक्ला, आर्टी
एससी नं., नाम व आर्म		65002 गगन मल्होत्रा, आर्टी
00044 राजीवन सी वी, इंजीनियर्स	12 सितम्बर 2002	65004 पवन सिंह, ईएमई
एस एल नं., नाम व आर्म		65005 अनुज सुदन, एसी
04547 सुदर्शन एस, सिग्नल्स	--30 अप्रैल 2003	65006 समीर भारती, इन्फैन्ट्री
स्थायी कमीशन		65007 गुलरेज हसन, आर्टी
ले. से कैप्टन		65008 आशीष खन्ना, इन्फैन्ट्री
आईसी नं., नाम व आर्म		65010 संजय यादव, आर्टी
64971 अभिषेक सिंह, एसी		65011 विकास, इन्फैन्ट्री
64972 नारायण सिंह भाटी, इन्फैन्ट्री		65012 दिलीप आर, इन्फैन्ट्री
64973 राजेश डोगरा, इन्फैन्ट्री		65013 जितेन्द्र सिंह, इन्ट
64974 रजनीश कुमार, एडी आर्टी		65014 वी सिवारमन, इंजीनियर्स
64975 अतीक अहमद मोहम्मद कासिम सिद्दिकी, आर्टी		65015 सुभाष सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
64976 एच सबरिनाथ, इन्फैन्ट्री		65016 समबिट कुमार साहु, आर्टी
64977 मनीष ठाकुर, सिग्नल्स		65017 अनिरबन भौमिक, इन्फैन्ट्री
64978 अरूण कुमार चौबे, ईएमई		65018 हर्षवर्धन सिंह राठौर, एओसी
64979 तरवेनी प्रसाद शर्मा, इन्फैन्ट्री		65019 दीप सिंह भिंडर, एसी
64980 के पूरन चन्द्र राव, इंजीनियर्स		65020 जसविंदर सिंह कौरा, आर्टी
64981 गिरीश अवस्थी, मैक इन्फैन्ट्री		65021 अशोक कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
64982 सुमित सभरवाल, आर्टी		65022 दिनेश सिंह, इन्फैन्ट्री
64984 देवेन्द्र आनन्द, आर्टी		65023 इन्द्राजीत घोष, इन्फैन्ट्री
64985 परवीन कुमार, इन्फैन्ट्री		65024 नरेन्द्र सिंह शेखावत, इंजीनियर्स
64987 गोरख सिंह सेनगर, इन्फैन्ट्री		65025 सौरभ शर्मा, आर्टी
64988 सुनील कुमार, एसी		65026 समीर अवस्थी, आर्टी
64990 विवेक सिंह चुनडावत, इन्फैन्ट्री		65027 विजय सिंह, इन्फैन्ट्री
64992 जयदेव सिंह गुलेरिया, आर्टी		65029 अमित कंडारि, इन्फैन्ट्री
64993 गुरिन्द्र पाल सिंह अमोल, आर्टी		65031 अश्वनि कुमार लाल, इंजीनियर्स
64994 शशी भूषण जाट, एडी आर्टी		65032 प्रदीप शर्मा, इंजीनियर्स
64995 शैलेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री		65033 शैलेश सत्यार्थी, आर्टी
64996 दीपक कुमार सिंह मेहरा, एडी आर्टी		65034 दीपक चौधरी, एडी आर्टी
64997 संदीप दुग्गल, एसी		65035 शैलेश पी राव, इन्फैन्ट्री
64998 अदवितिया कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री		65036 ताकीर मुंतखब, इन्फैन्ट्री
64999 विशाल राणा, इन्फैन्ट्री		65037 विशाल दिद्दि, इन्फैन्ट्री

- 65038 सुखदीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65039 नरेश पराशर, एडी आर्टी  
 65040 प्रेसेनजीत बासु, इन्फैन्ट्री  
 65041 नीलगगन सिंह कथूरिया, मैक इन्फैन्ट्री  
 65042 शौर अन्जुम, ईएमई  
 65043 सूर्या प्रकाश, आर्टी  
 65044 पंकज रावत, इंजीनियर्स  
 65045 जगदीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65046 आशीष हनसेन, इन्फैन्ट्री  
 65048 नरेन्द्र प्रसाद, इन्फैन्ट्री  
 65050 किशन सिंह मेहरा, आर्टी  
 65051 हरोल्ड थोमस, आर्टी  
 65052 अमरप्रीत सिंह, आर्टी  
 65053 राहुल नानजप्पा, इन्फैन्ट्री  
 65054 दुबाश फिरदोश परवेज, इन्फैन्ट्री  
 65055 जोगिन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65056 कैलाश बिष्ट, एएससी  
 65057 नमित मिनोचा, आर्टी  
 65058 भानू प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65059 महेन्द्र सिंह धारीवाल, इन्फैन्ट्री  
 65060 अमित कुमार कार्णवाल, आर्टी  
 65061 जिसांतो के, एडी आर्टी  
 65062 कशिश वधवा, इन्फैन्ट्री  
 65063 जैरी मनोहर, इन्फैन्ट्री  
 65064 राजबीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65065 संतोष कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65066 अनीष कटोच, आर्टी  
 65067 गुरमिंदर सिंह, आर्टी  
 65068 मा. . . . . त्रेहन, एसी  
 65069 मनोज चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 65070 जावेद अब्दी, आर्टी  
 65071 रवि जी रैना, आर्टी  
 65072 श्रवन कुमार अग्रवाल, इन्फैन्ट्री  
 65073 गुरूमयुम रंजीत शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 65074 विजय अब्राहम थम्पी, इंजीनियर्स  
 65077 महावीर सिंह, आर्टी  
 65078 अनुभव गैरोला, एसी  
 65079 अमित गुप्ता, आर्टी  
 65080 विक्रांत, ए ओ सी  
 65081 डिसोजा जार्ज रूजे, इन्फैन्ट्री  
 65083 मनीष मोहन सिन्हा, ए एस सी  
 65084 प्रीतीपालसिंह अहलुवालिया, ई एम ई  
 65085 आदीप पाल पानेसर, ई एम ई  
 65086 निशिथ थप्लियाल, इन्फैन्ट्री  
 65087 आशीष चौहान, इन्फैन्ट्री  
 65088 जे शैरी, इंजीनियर्स  
 65089 सम्राट नागर, मैक इन्फैन्ट्री  
 65090 प्रवीन कुमार, ई एम ई  
 65091 समीर सोमन, आर्टी  
 65092 गेगन बैडफाइ, इन्फैन्ट्री  
 65093 रवि राजा, इन्फैन्ट्री  
 95094 अभिमन्यु सिंह, इन्फैन्ट्री  
 95096 शल्य चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 65098 भुपिन्द्र सिंह संघु, इन्फैन्ट्री  
 65099 पी प्रमोथ, आर्टी  
 65100 आलोक कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री  
 65102 धीरज मोदगिल, इन्फैन्ट्री  
 65103 मनीष कुमार, इन्फैन्ट्री  
 65104 दिनेश चंद्रा वशिष्ठ, ए ओ सी  
 65107 अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 65108 शमन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 65109 गुहनराज के, ई एम ई  
 65110 इशान राजबारापु, आर्टी

--16 दिसम्बर 2004

शिव राम बैरवा  
 उप निदेशक  
 एम एस 8सी

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 483, दिनांक 6 सितम्बर, 2006:—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	(श्री/श्रीमती)				
1.	एस एस शेवाडे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
2.	एस सी दामले	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
3.	एच वी वैरागी	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
4.	एस सी पारशेर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
5.	जी के पोतदर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
6.	डी एम गायकवाड	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
7.	जे बी फिसरेकर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
8.	अप्रीति दीप चन्दा	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
9.	आर टी बंडल	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
10.	डी बी वेट्टल	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
11.	एस टी तागुंडे	ए-आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
12.	एस आर तिपानवर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
13.	ए जी साल्वी	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
14.	डी के तेदेलकर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
15.	आर डी पुजारी	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
16.	पी आर दास	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
17.	के एस मूर्ती	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
18.	एस के कोठारी	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
19.	सी आर फाटक	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
20.	सी बी घोड़के	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
21.	एम ए कागड़	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
22.	रविन्द्र बाबु	आई ए टी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
23.	आर आर भागवत	आई ए टी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
24.	एस के झा	आई ए टी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
25.	मुथू मणिकम	आई ए टी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
26.	आर वी वेकर	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
27.	बी एन बोरडे	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
28.	बी बी अवाती	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--

1	2	3	4	5	6
29.	एस एम कुलकर्णी	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'वी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
30.	एन कुंदू	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
31.	ए एस पटेल	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
32.	एच बी निकम	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
33.	आर जी गोहल	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
34.	वी एच माडे	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
35.	चंदन बोस	आर डी ई ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
36.	एम चिदानंद	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
37.	एस बी पुरोहित	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
38.	एच एस रेणु	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
39.	एस जी मेकसरे	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
40.	एन के चतुर्वेदी	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
41.	जे डी तेम्भुर्निकर	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
42.	एस एम अवतार	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
43.	वी एस पानीकर	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
44.	पी यू शेजवाल	वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
45.	जी डी काम्बले	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
46.	एम आर आटे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
47.	जी एन पुरंदर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
48.	बी जे सैम्बूल	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
49.	जी यू धर्माधिकारी	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
50.	एम एन अदया	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
51.	एस के चौगुले	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
52.	एम वी राजोपाध्ये	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
53.	थॉमस जॉन	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
54.	एस वी रामप्रसाद	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
55.	के एस कुलकर्णी	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
56.	पी डी शिरसागर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
57.	एस वी शिरवाकर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
58.	एस बी अधातरो	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
59.	ए बी तारु	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
60.	एस एस काले	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
61.	सी आर ईश्वर रॉव	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

1	2	3	4	5	6
62.	एस आर नेहालिया	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
63.	पी डी बोम्बे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
64.	डी एस वानी	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
65.	वी के तौर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
66.	वी जी सडकाले	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
67.	एस एम आई बागवान	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
68.	सी एन दिवेकर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
69.	वी डी गायकवाड़	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
70.	एस एन एरेंडे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 05 सितम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
01.	श्री वी एल शिरसागर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	(श्री/श्रीमती)				
01.	डी जी रोकडे	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
02.	बी आर जाधव	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
03.	एस वी देशपांडे	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
04.	वी वी अग्नीहोत्री	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
05.	एम आर मारथे	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
06.	सी डी बेलहे	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
07.	एस पी अवाचट	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
08.	एस एल लोखंडे	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
09.	एस के खेतमर	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
10.	एस एस दिक्षित	ए आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
11.	दीप प्रकाश श्रीवास्तव	एच ई एम आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
12.	प्रसाद मेनन	एच ई एम आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
13.	एन जी वागमरे	एच ई एम आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
14.	सुधीर लक्ष्मण प्याले	एच ई एम आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
15.	आर के कश्यप	एच ई एम आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

1	2	3	4	5	6
16.	वी एन खान	आर डी ई ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
17.	एच एस कारकर	आर डी ई ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
18.	ए एन धाड़गे	आर डी ई ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
19.	आर आर भालसिंह	वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
20.	वी पी सोल	वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
21.	जी एम गावड़े	वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
22.	एम आर अदेप	वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
23.	आर आर टवल्ले	वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
24.	ए टी शेख	वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
25.	ए आर गावड़े	आई ए टी	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
26.	एस शेषाद्रि	एच ई एम आर एल	टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी	--वही--

बी बी शर्मा

उप निदेशक (कार्मिक-I)

## वायु शाखा

सं. 484, दिनांक 5 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

## भारतीय वायु सेना

## उड़ान शाखा

एयर वॉयस मार्शल के मूल रैंक में:--

एन. वी. त्यागी (12765), उ. (पा.), 01 जून 2005

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में:--

एन. ए. के. ब्रॉन (13129), उ. (पा.), 29 जून 2001

डी. कुकरेजा (13130), उ. (पा.), 12 जुलाई 2001

एम. जॉन (13131), उ. (पा.), 08 अक्टूबर 2001

के. के. लोहवर (13132), उ. (पा.), 08 अक्टूबर 2001

एस. के. जायसवाल (13134), उ. (पा.), 08 अक्टूबर 2001

ए. एस. कारनिक (13140), उ. (पा.), 08 अक्टूबर 2001

आर. प्रताप (13146), उ. (पा.), 03 दिसम्बर 2001

अजित सिंह (13147), उ. (पा.), 03 दिसम्बर 2001

पी. बी. पटेल (14555), उ. (पा.), 15 मई 2006/02 जनवरी 2006

(केवल वरियता के आधार पर)

(इनका नाम एयर कॉमोडोर डी. सिंह (14553) उ.पा. और जे कुम्भत (14558), उ.पा. के बीच में आयेगा)

## ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

एस. एच. रथ (15726), उ.पा., 01 अप्रैल 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस. चंद्रशेखर (15717), उ.पा. और बी. के. दाश (15876), उ.पा. के बीच में आयेगा)

आर. के. शर्मा (16050), उ.पा., 01 अप्रैल 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन जी. एन. मूर्थी (15890), उ.पा. और आर. कपुर (16054), उ.पा. के बीच में आयेगा)

वी. राघवन (16393), उ.पा., 01 अप्रैल 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन पी. जायसवाल (16232), उ.पा. और एस. वाई. कोशे (16400), उ.पा. के बीच में आयेगा)

एस. घोटिया (16575), उ.पा., 05 अप्रैल 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन वी. शर्मा (16572), उ.पा. और एस. के. दबराल (16598), उ.पा. के बीच में आयेगा)

पी. डब्ल्यू. अम्बेकर (16600), उ.पा., 16 अप्रैल 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस. के. दबराल (16598), उ.पा. और आर. मलहोत्रा (16601), उ.पा. के बीच में आयेगा)

पी. एस. रंधावा (15035), उ.पा., 01 अक्टूबर 2001

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन आर. महादेवन (15033), उ.पा. और एन. पी. सिंह (15036), उ.पा. के बीच में आयेगा)

## वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में

एस. के. पुरी (13716), वै.ई.(वै.), 01 मार्च 2006

(इनका नाम एयर कॉमोडोर पी. पी. गंडा (13705), वै.ई.(वै.) और वी. के. मुराली (13728), वै.ई.(यां) के बीच में आयेगा)

## संभारिकी शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में

वी. के. एस. रमेश (13102), संभा., 02 मई 2005

ए. सिंह (13409), संभा., 02 जनवरी 2006

डी. बी. अजगांवकर (13413), संभा., 02 फरवरी 2006

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

वी. के. एस. रमेश (13102) संभा., 01 दिसम्बर 1997

के. वी. शंकर  
संयुक्त निदेशक, कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

सं. 485, दिनांक 06 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों  
मूल रैंक में करते हैं:--

भारतीय वायुसेना  
प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर की मूल ग्रुप कैप्टन (Time Scale) रैंक में

आर के मिश्रा (13001), आई सी जमीर (13520), एच एस मिश्रा  
(13651), जे एस नंदा (13653), वी एस दास (13879), बी एस शर्मा  
(14373), ओ सिंह (14375), ए के सहगल (14376), जी एस सिन्हा  
(14378), एच एस सोधी (14384), ए के जौहरी (14387), एस पी  
कुट्टे (14388), सी पी गणपति (14396), एस पी सिंह (14399),  
एन एन मलहोत्रा (14401), आर एस धटवाल (14408), ए एस यादव  
(14474), एन के मिश्रा (14476), एस सक्सेना (14482), डी एस  
सन्नोश्रा (14484), एस आलम (14489), वी एस शर्मा (14490),  
ए के चड्ढा (14491), ए कृष्णा (14499), एम एल तेवानी (14500),  
ए के श्रीवास्तव (14698), वी के सिंह (14700), एस के शर्मा (14703),  
एच वी सिंह (14709), एन के वर्मा (14725), आर जे श्रीवास्तव  
(14726), वी बार सांगवान (14727), ए कलिम (14729), एम एन  
सक्सेना (14737), वी के करपाल (14738), आर अनल (14740),  
एम ए खान (14746), ए सिंह (14925), आर के बालि (14931),  
ए बी शर्मा (14933), एच ए हसन (14934), के बाला सुब्रह्मन्यम  
(14936), एस बजाज (14942), एच बी शर्मा (14944), आर शर्मा  
(14945), एम एच रहमान खान (14946), ए के सूद (14950), वी  
सहगल (15040), सी आर आर शास्त्री (15228), डी के हलन (15230),  
जी एस सी नायर (15231), ए के चतुर्वेदी (15232), टी के भाट्टा (15233),  
आर के श्रीवास्तव (15234), आर के शर्मा (15240), एच पी गोयल  
(15241), पी के एन गरडे (15251), सुधांशु (15333), पी एन चिटनिश  
(15336), एस पी सिंह (15345)

--16 दिसम्बर 2004 से

आर एन कोसी (15582), एच एस नायर (15584), बी पटनायक  
(15585), बी पी अग्रवाल (15588), आर के श्रीवास्तव (15594), पी ए  
नायर (15595), पी एस एस विष्ट (15596), ए सिंह (15598),

--30 दिसम्बर 2004 से

प्रशासनिक शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमांडर के रैंक में

ए के अवस्थि (21685), आर के दूबे (21686), पी गोपीनाथन  
(21687), ए ए यू खान (21689), एम पी सिंह (21690), डी सिंह

(21693), आर एस चौधरी (21694), पी मोहन (21695), एस एस  
राखडा (21697), एम आर जी कृष्णान (21700), आर पी सिंह (21707)

--01 फरवरी 2005 से

आर दूबे (17064), वाई बग्गा (17385), ए के चटर्जी (17387),  
एस के नेथानी (17503), एस मुरली (17506), आई बी सिंह (17735),  
सी राजागोपालन (17753), पी भुरंगन (17764), के एस वी भूपेश  
(17766), पी के जोशी (17852), आर भार्गव (17880), एम बापीराजू  
(17888), आई एम आशिफ (17893), वी मोहनदार (17897), पी के  
बोरा (17899), ए सेनापति (17900), वी मल्लिक (18133), आर के  
गुप्ता (18137), एन पी रागेश (18139), एम श्रीवास्तव (18142), डी  
शर्मा (18143), जी एन्टोनी (18145), ए के राय (18148), के एस राय  
(18154)

--16 दिसम्बर 2004 से

प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर (टाइम स्केल) से विंग कमांडर के मूल रैंक में

टी सिंह (17134), प्रशा. 16 दिसम्बर 2004

उड़ान शाखा

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

डी भाटिया (22124), उ.पा. 19 दिसम्बर 2005

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

आर के वर्मा (21191), वै.ई.(वै), 16 दिसम्बर 2004

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

सुशील राय (25473), वै.ई.(वै), 16 दिसम्बर 2004

संजीव श्रीवास्तव

विंग कमांडर

जे.डी.ओ. -3(डी)

सेना शाखा

सं. 486, दिनांक 06 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों  
को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण  
आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा  
से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कर्नल पी के एक्की (आईसी-29983), ईएमई, 16 मई 1999  
(अ.प्र.)



लै. कर्नल (सलेक्शन) पी आर खण्डेकर (आईसी-31078), ईएमई, 29 अप्रैल 1999 (अ.प्र.)

कर्नल उथप्पा कोनेरिरा अय्यप्पा (आईसी-33917), ईएमई, 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह)

कर्नल (टीएस) नरेन्द्र सिंह राठौर (आईसी-30929), इन्फैन्ट्री, 30 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

कर्नल शिवाजी रंजन घोष (आईसी-30719), इन्फैन्ट्री, 01 सितम्बर 2005 (अ.प्र.)

कर्नल (सलेक्शन) अरूण धर एस एम (आईसी-35933), इन्फैन्ट्री, 10 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल मुकेश कुमार (आईसी-34566), इन्फैन्ट्री, 11 मई 2005 (अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) तामल कुमार सिरकर (आईसी-35608), एम/इन्फैन्ट्री, 10 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) रेखी मदनजीत सिंह (आईसी-37124), इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2005 (पूर्वाह)

लै. कर्नल एस एस ग्रेवाल (आईसी-42351), एएससी, 07 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) श्याम मुरारी सिंह (आईसी-27525), एओसी, 03 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल (सलेक्शन) सेबेस्टिन कुमार (आईसी-36247), इन्ट, 17 जून 2005 (अ.प्र.)

कर्नल (टीएस) गुरिन्दर सिंह (आईसी-36452), सिग्नल, 30 जून 2005 (अ.प्र.)

आर. के. शर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एम एस/पी आर



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th September 2006

No. 475, dated 1st November 2006.—Consequent on promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/8/2006-CS. II, dated 31st May, 2006, the President is pleased to appoint Shri Dharam Vir, Stenographer Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 7th August, 2006 till 31.12.2006 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A & B' (Merged) of CSSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. SARASWATHY  
Dy. Secy.

## ARMY BRANCH

No. 476, dated 6th September 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

## REGULAR ARMY (SPECIAL COMMISSION)

(To be Lt w.e.f. 12 Sep 1998)

No. 9511607H Hav Rajeevan CV (SC-00044X), Engrs seniority next below 6388055N Hav Pradeep Kumar KV (SC-00043P), Inf and above No. 13751666N Hav Bhawani Singh (SC-00045A), Inf whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 21 Aug 1999.

CHANDER SHEIKHAR  
Lt Col  
AMS-8B

## AIR BRANCH

No. 477, dated 6th September 2006.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 19 Jun 2004.

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Udai Pratap Singh (27948), Pravin Dikshit (27950), Amit Amarnath Dhopawkar (27951), B Vijayaraghavan (27952),

Avinash Bhardwaj (27953), Chetan Sharma (27954), Saurabh Raghuvanshi (27955), Arun Kumar Singh (27956), Praveen R Sarathi (27957), Kunal Kumra (27958), Pawar Nishant Shantaram (27959), Bhaskar Aaruni (27960), Anil Yadav (27961), Survesh Dhir (27962), Muralidharan Charu Dhathan (27963), Shailendra Kumar Singh (27964), Kapil Rajput (27965), Sahil (27966), Jagdeep Singh (27967), N Abhishek (27968), Arun Deswal (27969), Yasir Faruqi (27970), Akshay Kumar Vij (27971), Shailendra Singh (27972), Vinay Kumar (27973), Manish Umesh Sharma (27975), Manish Kumar Singh (27976), Naveen Kumar Tiwari (27977), Gurinder Singh (27978), Santosh Kumar Mishra (27979), Mahipal Singh Sangwan (27980), Abhinandan Varthaman (27981), Amit Sharma (27982), Shishir Arora (27983), Suhas Pralhadrao Gore (27985), Gaurav Chaturvedi (27986), Varun Singh (27987), Bibhu Dutta SK Jenamani (27988), Ashish Kumar Dogra (27989), Kshetrimayum Shyamananda Singh (27990), Vivek Mittal (27991), Rohit Rai (27992), Rahul Sharma (27993), M Shree Vighnesh (27994), Karan Arha (27995), Aditya Singh Pawar (27996), Ankur Dagar (27997), Jaspreet Singh Sandhu (27998), Arvind Kumar Repswal (27999), Ankur Saxena (28000), Vivek Dwivedi (28001), Abhimanyu Singh (28002), Nitin Nagarkoti (28003), Avinash Mahapatra (28004), Amit Ranjan (28005), Sidharth Agarwal (28006), Rudra Chattopadhyay (28007), Harshit Sinha (28009), Divesh Pankaj (28010), TJ Ranjith (28011), Yakshendra Singh Panwar (28012), Sandeep Kumar Pradhan (28013), Janarnjeet Singh Virdi (28015), Amit Vikas Malpure (28016), Lakshveer (28017), Abhimanyu Singh (28019), Anshul Dave (28022), Rajat Devendra Gupta (28024), Khairnar Mahesh Pradip (28026), Chanchal Kishor (28027), Sameep Nijhawani (28028), Pramod Kumar N (28029), Sharad Sirohi (28030), Rahul Verma (28031), Jasmeet Singh (28032), S Muruga Bharathi (28033), Sushil Kumar Yadav (28034), Rajeev Dogra (28035), Archit Kapur (28036)—wef 19 Jun 2004.

SSRIVASTAVA  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

## ARMY BRANCH

No. 478, dated 1st September 2006.—The President is pleased to re-employ the under mentioned JCOs on the active list in the rank and date specified:—

## REGULAR ARMY

## DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Satnam Singh (JC-174911A), Formerly The Punjab Regt, 09 Jul 2005

In the rank of Subedar (GD)

Subedar Chandra Pal (JC-412173X), Formerly Parachute Regt, 02 Oct 2004

Subedar Ranjeet Singh (JC-171866N), Formerly Raj Rif, 08 Oct 2005

Subedar Bansi Lal (JC-194694W), Formerly Mahar Regt,  
08 Oct 2005

Subedar Jai Pal Singh (JC-238361M), Formerly Armed Corps,  
08 Oct 2005

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Rameshwar Prasad (JC-841816A), Formerly Indian  
Navy, 05 Mar 2005

Nb Sub Amar Singh (JC-211126K), Formerly Sikh LI, 09 Jul  
2005

Nb Sub Kumar Chhetri (JC-263496Y), Formerly Arty, 09 Jul  
2005

Nb Sub Bedge Rava Saheb (JC-204605H), Formerly The  
Mech Inf Regt, 08 Oct 2005

Nb Sub Mohinder Singh Thakur (JC-518961M), Formerly  
The Dogra Regt, 08 Oct 2005

T.K.M. PILLAI  
Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 479, dated 4th September 2006.—The President is  
pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Balbir Singh (JC-266234N), 14 May 2005

Nb Sub Uttam Kumar Mallick (JC-264585K), 29 May 2005

Nb Sub Daskhi Naranjan Kshetrapal (JC-261545X),  
02 Jun 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Thomas ND (JC-262283Y), 04 Jul 2005/01 Jun 2005

Nb Sub Narwade Ramrao Ganpati (JC-262672Y), 01 Jun 2005

Nb Sub Gagan Singh (JC-263227M), 01 Jun 2005

Nb Sub Daljit Singh (JC-263271W), 01 Jun 2005

Nb Sub Durga Prasad (JC-263505P), 06 Jun 2005/01 Jun  
2005\*

Nb Sub Thilaka Mohanan Nair TR (JC-263740N), 06 Jun  
2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Muraleedharan V (JC-263832L), 07 Jul 2005/01 Jun  
2005\*

Nb Sub AR Joyappa (JC-264110A), 06 Jun 2005/01 Jun  
2005\*

Nb Sub Vindhya Vasini Prasad (JC-264219A), 01 Jun 2005

Nb Sub Satya Ram Singh (JC-264197M), 01 Jul 2005

Nb Sub T Palthasar (JC-264342Y), 17 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Vijay Bahadur (JC-265017L), 09 Jul 2005/01 Jun  
2005\*

Nb Sub Surat Singh (JC-265585W), 01 Jun 2005

Nb Sub Angrez Singh (JC-265532X), 05 Jul 2005/01 Jun  
2005\*

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-266311X), 01 Jun 2005

Nb Sub Jagir Singh (JC-266456H), 01 Jun 2005

Nb Sub Kailash Chand (JC-266552A), 01 Jun 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-266610W), 22 Jul 2005/01 Jun  
2005\*

Nb Sub Neeraj Jha (JC-262300N), 10 Jul 2005/10 Jun 2005\*

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-261479A), 13 Jul 2005/15 Jun  
2005\*

Nb Sub Mohan Kumar TK (JC-260411M), 01 Jul 2005

Nb Sub Hari Nandan Singh (JC-262456L), 11 Jul 2005/  
01 Jul 2005\*

Nb Sub Jagdish Singh (JC-262743P), 01 Jul 2005\*

Nb Sub Jagdish Singh Khatkar (JC-262920K), 04 Jul 2005/  
01 Jul 2005\*

Nb Sub Manick Chandra Saha (JC-263791F), 27 Aug 2005/  
01 Jul 2005\*

Nb Sub Tarlochan Singh (JC-263846A), 08 Aug 2005/01 Jul  
2005\*

Nb Sub Rama Sankar Tripathi (JC-264813F), 01 Jul 2005

Nb Sub Tileswar Gogoi (JC-264022K), 05 Jul 2005/01 Jul  
2005\*

Nb Sub Lal Singh Chauhan (JC-264518Y), 12 Jul 2005/01 Jul  
2005\*

Nb Sub Govindan BG (JC-264420L), 01 Jul 2005

Nb Sub Raj Narayan Ojha (JC-264642A), 01 Jul 2005

Nb Sub Raghubir Singh (JC-264322L), 01 Aug 2005/01 Jul  
2005\*

Nb Sub Duggepugu Samsun (JC-264766P), 01 Jul 2005

Nb Sub Mohinder Singh (JC-264681Y), 05 Sep 2005/01 Jul  
2005\*

Nb Sub Sudesh Kumar (JC-264528H), 01 Jul 2005

Nb Sub Chougule Baburao Rav (JC-262129L), 01 Jul 2005

To be Nb Sub

BHM Satya Deo Yadav (No. 14379550W now JC-269096H),  
13 Apr 2006/29 Nov 2005\*

Hav Inder Pal Singh (No. 14476366P now JC-269097L),  
14 Feb 2006/29 Nov 2005\*

Hav Purushothaman B (No. 14491501P now JC-269098N),  
15 Feb 2006/30 Nov 2005\*

Hav Nazar Singh (No. 14369914K now JC-269099W),  
08 Feb 2006/01 Dec 2005\*

Hav Radhe Shyam Singh (No. 14363714X now JC-269100A), 20 Feb 2006/01 Dec 2005\*

Hav Pralhad Sinha (No. 14478672H now JC-269101H), 08 Apr 2006/01 Jan 2006\*

Hav Sushil Kumar Mishra (No. 14351384X now JC-269102L), 28 Apr 2006/01 Feb 2006\*

RHM Ram Pravesh Prasad (No. 14489512H now JC-269103N), 22 Mar 2006/01 Feb 2006\*

Hav Harbans Singh (No. 14479623M now JC-269104W), 10 Apr 2006/01 Feb 2006\*

RHM Raj Mohan K (No. 14489931A now JC-269105Y), 08 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Hav Mangal Singh (No. 3382667M now JC-269106F), 11 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Hav Neelam Singh (No. 14478534F now JC-269107K), 04 Mar 2006/09 Feb 2006\*

BHM Tirmal Singh (No. 14362134W now JC-269108M), 22 Mar 2006/10 Feb 2006\*

Hav Ghadage Vishwas Khashaba (No. 14368704X now JC-269109P), 25 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Hav Kulbir Singh (No. 14357933H now JC-269110K), 01 Mar 2006

Hav Arun Kumar Singh (No. 14478466Y now JC-269111M), 01 May 2006

BHM Amar Singh (No. 14477764H now JC-269024Y), 10 Jan 2006/01 Aug 2005\*

BHM Nikam Balu Sambha (No. 14480541W now JC-269025F), 22 Feb 2006/21 Nov 2005\*

Hav Ganesh Lal (No. 14366626M now JC-269026K), 27 Feb 2006/06 Dec 2005\*

Hav Sugriv Yadav (No. 14482814M now JC-269027M), 12 Dec 2005

RHM Surjit Singh (No. 14483409F now JC-269028P), 19 Jan 2006/14 Dec 2005\*

BHM Jai Kishor Jha (No. 14477711K now JC-269029X), 27 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Hav Satnam Singh (No. 14398281K now JC-269030M), 12 Feb 2006/01 Jan 2006\*

Hav Gurdip Singh (No. 15113962K now JC-269031P), 19 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Hav Chandra Sekaran (No. 14371945H now JC-269032X), 15 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Hav Jaimangal Yadav (No. 15101207N now JC-269033A), 11 Mar 2006/01 Feb 2006\*

Hav Balwinder Singh (No. 14478130Y now JC-269034H), 01 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Hav Dulla Srinivasa Rao (No. 15113057P now JC-269035L), 27 Mar 2006/01 Feb 2006\*

Hav Ishwar Singh (No. 14370480P now JC-269036N), 01 Mar 2006/01 Feb 2006\*

Hav Nalkar Dnyaneshvar Ramdas (No. 14391773A now JC-269037W), 04 Mar 2006/17 Feb 2006\*

Hav Shyam Kumar (No. 14367488H now JC-269038Y), 01 Mar 2006

BHM Pratap Singh (No. 14479959N now JC-269039F), 01 Apr 2006

\*(Gtd seniority wef)

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Chandra Pal Singh (JC-296151X), 02 Jun 2006/01 May 2006\*

Sub Parthiban N (JC-256137H), 01 Jun 2006

Sub Ram Sanehi (JC-296731N), 01 Jul 2006

To be Substantive Subedar Major (RT)

Sub Umesh Chandra Tripathi (JC-120404Y), 01 Jul 2006

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Mahesh Chander (JC-298263W), 24 Apr 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Satyavir Yadav (JC-297981A), 06 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Kamlapure Suryakant Ramchandra (JC-298511F), 29 Jun 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Raj Rup (JC-297821A), 01 Mar 2006

Nb Sub Dharmpal Yadav (JC-297920H), 01 Apr 2006

Nb Sub Surain Singh (JC-298359Y), 28 Jun 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Shivmuni Singh (JC-298186M), 03 Jul 2006/15 Apr 2006\*

Nb Sub Jai Prakash Singh (JC-298677H), 24 May 2006/01 May 2006\*

Nb Sub Ravindran OK (JC-298003L), 01 Jun 2006/13 May 2006\*

Nb Sub Sundaresan B (JC-298368A), 02 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub M Alphonse (JC-298418A), 13 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Ram Bodh (JC-298775H), 10 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub C Saman (JC-297207L), 01 Jul 2006

Nb Sub Rajendran K (JC-298459K), 08 Jul 2006/01 Jul 2006\*

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Ram Sevak Singh (JC-298789H), 12 May 2006/  
01 Apr 2006\*

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Brij Raj (JC-297731Y), 27 Apr 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Brij Bhushan Shukla (JC-297776Y), 01 May 2006

Nb Sub Sawaran Singh (JC-297837L), 15 May 2006/01 May  
2006\*

Nb Sub Baljit Singh (JC-297839W), 01 Jun 2006

Nb Sub Mohamad Aslam (JC-297888Y), 01 Jun 2006

Nb Sub Bhagirathi Subudhi (JC-297889F), 01 Jun 2006

Nb Sub G Buvaneswaran (JC-297890W), 01 Jul 2006

To be Nb Sub

RHM Kripa Nand Jha (No. 14377439N now JC-299544Y),  
22 May 2006/01 Mar 2006\*

BHM Partap Singh (No. 14377402M now JC-299545F), 10  
Apr 2006/01 Apr 2006\*

RHM Patil Daivat Vasantao (No. 14367561W now JC-  
299546K), 19 Apr 2006/01 Apr 2006\*

BHM Balasubramanian R (No. 14371487X now JC-  
299547M), 22 Apr 2006/01 Apr 2006\*

BHM Kumar Pal Singh (No. 14365768X now JC-299548P),  
26 Apr 2006/01 Apr 2006\*

BHM Sankatha Prasad (No. 14375443X now JC-299549X),  
08 May 2006/01 Apr 2006\*

Hav Benjamin Y (No. 14489799L now JC-299550M), 12  
May 2006/01 Apr 2006\*

BHM Dharam Raj Singh (No. 14486825W now JC-  
299551P), 17 May 2006/01 Apr 2006\*

RHM Raghubir Singh (No. 14359178H now JC-299552X),  
27 May 2006/01 Apr 2006\*

Hav Amarendra Chowdhury (No. 14379776F now JC-  
299553A), 31 May 2006/01 Apr 2006\*

Hav Ramappa N (No. 14378166H now JC-299554H), 03  
Jun 2006/01 Apr 2006\*

BHM Krishna Prasad Sah (No. 14365262Y now JC-  
299555L), 15 Jun 2006/01 Apr 2006\*

BHM Ramesh (No. 14375992X now JC-299556N),  
10 Jun 2006/01 May 2006\*

Hav Ram Kumar (No. 14361772H now JC-299557W), 01  
Jun 2006

BHM Ramesh Chand (No. 14361091A now JC-299558Y),  
01 Jun 2006

BHM Shyam Lal Yadav (No. 14383643H now JC-299559F),  
02 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Hav Subramani C (No. 14371408K now JC-299560W), 02  
Jun 2006/01 Jun 2006\*

BHM Dinesh Kumar Singh (No. 14389861X now JC-  
299561Y), 11 Jun 2006/01 Jun 2006\*

BHM Sheo Lal Paswan (No. 14379568M now JC-299562F),  
13 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Hav Ram Raj Singh (No. 14368954Y now JC-299563K), 13  
Jun 2006/01 Jun 2006\*

BHM Munusamy R (No. 15101264P now JC-299564M),  
24 Jun 2006/13 May 2006\*

RHM Kamal Karmakar (No. 14351830N now JC-299565P),  
18 Jun 2006/22 May 2006\*

RHM A Mathivanan (No. 14372896X now JC-299566X),  
01 Jun 2006

BHM Apurba Kumar Sil (No. 14385487H now JC-  
299567A), 01 Jun 2006

BHM K Nandan Pillai (No. 14377859N now JC-  
299568H), 02 Jun 2006/01 Jun 2006\*

BHM Sawarn Singh (No. 14367265L now JC-299569L), 02  
Jun 2006/01 Jun 2006\*

Hav Charanjit Singh (No. 14387634Y now JC-299570A),  
02 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Hav Rajan P (No. 14375274F now JC-299571H),  
30 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Hav Munni Lal (No. 14364390K now JC-299572L), 27 Jun  
2006/20 Jun 2006\*

Hav Gangadhar Singh (No. 14374438A now JC-299573N),  
01 Jul 2006

BHM Egnesh Lakra (No. 14468818X now JC-299574W),  
01 Jul 2006

RHM Anand Singh (No. 14362771M now JC-299575Y),  
02 July 2006/01 July 2006\*

BHM Kiran Chandra Kalita (No. 14358680Y now JC-  
299576F), 02 July 2006/01 July 2006\*

BHM Ponnu Samy (No. 14374355P now JC-299577K), 03  
July 2006/01 July 2006\*

\*(Gtd ante-date seniority wef)

#### CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Subedar Major (Y of S)

Sub Rishi Prakash (JC-368509K), 01 Apr 2006

Sub Gurmel Singh (JC-368512K), 01 Apr 2006

To be Substantive Subedar Major (F of S)

Sub Rajinder Singh (JC-224682Y), 08 Feb 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Feb  
2006 without effect on pay and allowances)

Sub Govind Singh Chauhan (JC-367093L), 01 Mar 2006  
 Sub Unnikrishnan V (JC-367096Y), 01 Apr 2006  
 Sub Surjit Singh (JC-367097F), 03 Apr 2006  
 (Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Apr 2006 without effect on pay and allowances)  
 Sub Lachhman Singh (JC-367102P), 01 May 2006  
 Sub Sethumadhavan A P (JC-367106X), 07 May 2006  
 (Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st May 2006 without effect on pay and allowances)  
 Sub Hisamuddin Khan (JC-367110A), 01 May 2006  
 Sub Chiranjii Prasad Saklani (JC-367121M), 01 May 2006  
 Sub Siya Nand (JC-367249X), 01 May 2006  
 To be Substantive Subedar Major (OP Ciph)  
 Sub Triloki Nath Upadhyay (JC-368429M), 01 Apr 2006  
 To be Substantive Subedar Major (OP Spec)  
 Sub Ashok Kumar (JC-368115L), 01 Mar 2006  
 To be Substantive Subedar Major (CLK GD)  
 Sub Chhota Prasad (JC-368116N), 01 May 2006  
 To be Substantive Subedar Major (GD)  
 Sub Mahendra Pratap Singh Rathore (JC-370456P), 08 Feb 2006  
 (Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Jan 2006 without effect on pay and allowances)  
 Sub Shyam Sundar (JC-370615F), 01 Apr 2006  
 Sub Misal Shahaji Govind (JC-370651M), 01 Apr 2006  
 Sub MD Abdul Wahab A Khan (JC-370655H), 08 Apr 2006  
 (Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Apr 2006 without effect on pay and allowances)  
 Sub Jaydev Sarkar (JC-829026Y), 01 Apr 2006  
 Sub Sekhar Mahata (JC-370677F), 01 Apr 2006  
 Sub H Raja (JC-370682M), 01 May 2006

S. P. SHARMA, Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 480, dated 1st September 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)  
 Subedar Ranjit Singh Rana (JC-205720P), 01 May 2006  
 Subedar Gunja Singh Gurung (JC-133365K), 01 May 2006

Subedar Lil Bahadur Gurung (JC-161021F), 01 May 2006  
 Subedar Ravinder Singh (JC-152798W), 01 May 2006  
 To be Substantive Subedar (GD)  
 Naib Subedar Tirlok Singh (JC-148490L), 01 May 2006  
 Naib Subedar Jaydeo Singh (JC-840896W), 01 May 2006  
 Naib Subedar Ram Narain Pal (JC-840912H), 01 May 2006  
 Naib Subedar Muneshwar Ram (JC-840913L), 01 May 2006  
 To be Substantive Subedar (GD)  
 Naib Subedar Pritam Singh Langeh (JC-211314L), 01 May 2006

T. K. PILLAI, Under Secy.

No. 481, dated 5th September 06—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)  
 UB Chitnis (MR-03932X), 20 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Mar 2005  
 Lt. Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)  
 Col M Dey (MR-04421A), 28 July 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jan 2004  
 Col JG Risbud (MR-4495P), 16 Aug 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Mar 2004  
 Col KI Manchanda (MR-4937H), 09 Jan 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 16 Mar 2004  
 Col JN Lakhe (MR-04505), 01 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Mar 2005  
 Col Mahendra Yadav (MR-04557K), 14 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2005  
 Col Ravjot Singh (MR-05166L), 10 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Apr 2005  
 Col Ravi Kale (MR-03970N), 21 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2005  
 Col CS Joshi (MR-4654F), 21 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jun 2005  
 Col Manmohan Singh (MR-04350K), 03 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jun 2005  
 Col V Baskaran (MR-04017L), 23 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2005  
 Col MD Venkatesh (MR-04139P), 29 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jul 2005  
 Col KRM Rao (MR-04059X), 05 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Aug 2005

Col Sharat Johri (MR-05092F), 24 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Aug 2005

Col SS Parmar (MR-04945F), 02 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Aug 2005

Col KM Rai (MR-03977X), 27 Jan 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Aug 2005

Col SK Kathpalia (MR-03978A), 12 Nov 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 31 Aug 2005

Col KK Lahiri (MR-03980X), 04 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 31 Aug 2005

Col RD Wadhwa (MR-03983L), 07 Nov 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2005

Col HS Bhatoe (MR-03988K), 24 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2005

Col Deepak Kalra (MR-03989M), 03 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2005

Col AK Das (MR-03992M), 06 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Sep 2005

Col Bipin Puri (MR-03993P), 27 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Sep 2005

Col Anupam Saha (MR-03994X), 09 Jan 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Sep 2005

Col AR Gupta (MR-03997L), 20 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Sep 2005

Col R Gourishankar (MR-03998N), 04 Nov 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Sep 2005

Col YK Arora (MR-05230X), 27 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Sep 2005

Col Rajiv Sharma (MR-04944Y), 14 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Sep 2005

Col Pawan Kapoor (MR-04049N), 19 Dec 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Sep 2005

Col Ajoy Mahen (MR-04054Y), 01 Nov 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Sep 2005

Col (Mrs) SRB Singh (MR-05168W), 09 Nov 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Sep 2005

Col MK Mandal (MR-05676M), 30 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Sep 2005

Col M Ganguly (MR-04141M), 26 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Sep 2005

Col Sanjiv Chopra (MR-04142P), 24 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 Sep 2005

Col CS Narayanan (MR-04173P), 24 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 20 Sep 2005

Col Harsh Kumar (MR-01148W), 27 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Sep 2005

Col SPS Kochar (MR-04152Y), 05 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Oct 2005

Col Rajvir Singh (MR-04153F), 21 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Oct 2005

Col A Datta (MR-04155M), 15 Oct 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Oct 2005

Col PK Das (MR-04161A), 25 Nov 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Nov 2005

Col PK Singh (MR-04164N), 02 Feb 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Nov 2005

Col S Bhattacharya (MR-4659A), 04 Jan 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Nov 2005

Col NS Mani (MR-04713H), 03 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 Nov 2005

Col (Mrs) Rakhi Singh (MR-05622L), 19 Dec 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Dec 2005

Col (Mrs) Shashi Dangwal (MR-05800H), 01 Jan 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Dec 2005

FB Bhot (MR-03867H), 07 Feb 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Dec 2004

RAJESH KAMRAN  
Brig  
Dy DGAFFMS (P)

No. 482, dated 06 September 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name and Arm

64954 Ravinder Negi, EME

64955 Kapil Sanawar, EME

64956 Mandeep Singh Nijjar, Engrs

64958 Rajesh Sharma, SIGS

64959 Dinesh Singh Mahendra Singh, Engrs

64960 Vikram Khurmi, Engrs

64962 Kulkarni Ajit Vijay, EME

64963 Gaurav Agarwal, EME

64964 Vinod Kumar Vijayan, Engrs

64965 Shailendra Singh, Engrs

64966 Mishra Akhilesh Kanhayalal, Engrs	—06 Nov 2002	64993 Gurinder Pal Singh Amole, Arty
53881 Avinash Sharma, MF	—10 Jun 2000	64994 Shashi Bhushan Jat, Ad Arty
60361 Vikas Verma, AD Arty	—09 Dec 2004	64995 Shailendra Kumar Singh, Inf
58576 Patnaikuni Nagaraj, AEC	—12 Dec 2002	64996 Deepak Kumar Singh Mehra, AD Arty
55521 MM Babu, Engrs	—09 May 1999	64997 Sandeep Duggal, AC
56142 Rajesh Srivastava, AD Arty	—05 May 2003	64998 Adwitiya Kumar Sinha, Inf
56317 Naresh Kumar, Engrs	—07 Nov 2001	64999 Vishal Rana, Inf
62718 Rana R Bir Singh Dhaliwal, Inf	—16 Dec 2004	65000 Debaraj Bhattacharya, Inf
63693 Ravi Kumar Tripathi, Engrs	—13 Dec 2005	65001 Alok Shukla, Arty
64744 Keshav Singh Jasrothia, EME		65002 Gagan Malhotra, Arty
64753 Shailesh Badola, SIGS		65004 Pawan Singh, EME
64806 Suraj Sharma, Arty,	—16 Dec 2004	65005 Anuj Sudan, AC
64819 Nishit Mishra, EME	—08 May 2002	65006 Samir Bharti, Inf
64923 Pradip Mukherjee, Engrs	—04 Nov 2004	65007 Gulrez Hasan, Arty
SC No. Name and Arm		65008 Ashish Khanna, Inf
00044 Rajeevan CV, Engrs	—12 Sep 2002	65010 Sanjay Yadav, Arty
SL No, Name and Arm		65011 Vikas, Inf
04547 Sudarsanan, Sigs	—30 Apr 2003	65012 Dileep R, Inf
IC No, Name and Arm		65013 Jitander Singh, Int
64971 Abhishek Singh, AC		65014 V Sivaraman, Engrs
64972 Narayan Singh Bhati, Inf		65015 Subhash Singh Chauhan, Inf
64973 Rajesh Dogra, Inf		65016 Sambit Kumar Sahu, Arty
64974 Rajneesh Kumar, Ad Arty		65017 Anirban Bhowmick, Inf
64975 Atique Ahmed Mohd Kasim Siddiqui, Arty		65018 Harsh Vardhan Singh Rathore, AOC
64976 H Sabarinath, Inf		65019 Deep Singh Bhinder, AC
64977 Manish Thakur, SIGS		65020 Jaswinder Singh Koura, Arty
64978 Arun Kumar Chaubey, EME		65021 Ashok Kumar Misra, Inf
64979 Tarveni Prashad Sharma, Inf		65022 Dinesh Singh Tanwer, Inf
64980 K Purna Chandra Rao, Engrs		65023 Indrajit Ghosh, Inf
64981 Girish Awasthy, Mech Inf		65024 Narendra Singh Shekhawat, Engrs
64982 Sumit Sabharwal, Arty		65025 Saurabh Sharma, Arty
64984 Devender Anand, Arty		65026 Sameer Awashthi, Arty
64985 Parveen Kumar, Inf		65027 Vijay Singh, Inf
64987 Gorakh Singh Senger, Inf		65029 Amit Kandari, Inf
64988 Sunil Kumar, AC		65031 Ashwani Kumar Lal, Engrs
64990 Vivek Singh Chundawat, Inf		65032 Pradeep Sharma, Engrs
64992 Jaidev Singh Guleria, Arty		

65033 Shailesh Satyarthi, Arty	65066 Anish Katoch, Arty
65034 Deepak Choudhary, Ad Arty	65067 Gurminder Singh, Arty
65035 Shailesh P Rao, Inf	65068 Manik Trehan, AC
65036 Taqueer Muntakhab, Inf	65069 Manoj Chaudhary, Inf
65037 Vishal Diddi, Inf	65070 Javed Abdi, Arty
65038 Sukhdeep Singh, Inf	65071 Ravi Ji Raina, Arty
65039 Naresh Parashar, Ad Arty	65072 Shravan Kumar Agrawal, Inf
65040 Prasenjit Basu, Inf	65073 Gurumayum Ranjit Sharma, Inf
65041 Neelgagan Singh Kathuria, Mech Inf	65074 Vijay Abraham Thampy, Engrs
65042 Shauoor Anjum, EME	65077 Mahavir Singh, Arty
65043 Surya Prakash, Arty	65078 Anubhav Gairola, AC
65044 Pankaj Rawat, Engrs	65079 Amit Gupta, Arty
65045 Jagdeep Singh, Inf	65080 Vikrant, AOC
65046 Ashish Hansen, Inf	65081 Disouza George Rujay, Inf
65048 Narender Prasad, Inf	65083 Manish Mohan Sinha, ASC
65050 Kishan Singh Mehra, Arty	65084 Prithipal Singh Ahluwalia, EME
65051 Harold Thomas, Arty	65085 Adeep Paul Panesar, EME
65052 Amarpreet Singh, Arty	65086 Nisheeth Thapliyal, Inf
65053 Rahul Nanjappa, Inf	65087 Ashish Chauhan, Engrs
65054 Dubash Firdosh Pervez, Inf	65088 J Sherry, Engrs
65055 Joginder Pal Singh, Inf	65089 Samrat Nagar, Mech. Inf
65056 Kailash Bisht, ASC	65090 Praveen Kumar, EME
65057 Namit Minocha, Arty	65091 Sameer Soman, Arty
65058 Bhanu Pratap Singh, Inf	65092 Gegen Vaiphei, Inf
65059 Mahendra Singh Dhariwal, Inf	65093 Ravi Raja, Inf
65060 Amit Kumar Karnwal, Arty	65094 Abhimanyu Singh, Inf
65061 Jissanto K, AD Arty	65096 Shalya Chaudhary, Inf
65062 Kashish Wadhwa, Inf	65098 Bhupinder Singh Sandhu, Inf
65063 Jerry Manohar, Inf	65099 P Pramothe, Arty
65064 Rajbir Singh, Inf	65100 Alok Kumar Sinha, Inf
65065 Santosh Kumar Singh, Inf	65102 Dhiraj Modgil, Inf



65103 Manish Kumar, Inf

65104 Dinesh Chander Vashista, AOC

65107 Amit Sharma, Inf

65108 Shaman Kumar, Inf

65109 Guhanraj K, EME

65110 Ishan Rajavarapu, Arty

—16 Dec 2004

SHIV RAM BAIRWA  
Dy. Dir.  
MS 8CDEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 483, dated 6th September 2006—The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2005 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Lab/ Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5	6
	(S/Shri/Smt.)				
01.	SM Shevade	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
02.	SC Damle	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
03.	HV Vairagi	ARDE	TO 'B'	TO 'B'	-Do-
04.	SC Parasher	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
05.	GK Potdar	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
06.	DM Gaikwad	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
07.	JB Fisrekar	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
08.	Uprety Deep Chandra	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
09.	RT Bandal	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
10.	DB Vetal	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
11.	ST Tagunde	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
12.	SR Tippanwar	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
13.	AG Salvi	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
14.	DK Tadelkar	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
15.	RD Pujari	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
16.	PR Das	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
17.	KS Moorthy	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
18.	SK Kothari	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-

1	2	3	4	5	6
19.	CR Phatak	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
20.	CB Ghodke	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
21.	MA Kagad	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
22.	Rabindra Babu	IAT	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
23.	RR Bhagwat	IAT	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
24.	SK Jha	IAT	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
25.	Muthu Manickam	IAT	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
26.	RV Waikar	RDEE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
27.	BN Borade	RDEE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
28.	BB Awati	RDEE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
29.	SM Kulkarni	RDEE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
30.	N Kundu	RDEE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500
31.	AS Patel	RDEE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
32.	HB Nikam	RDEE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
33.	RG Gohel	RDEE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
34.	VH Made	RDEE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
35.	Chandan Bose	RDEE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
36.	M Chidanand	VRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
37.	SB Purohit	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
38.	HS Renu	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
39.	SG Makasare	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
40.	NK Chaturvedi	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
41.	JD Tembhurnikar	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
42.	SM Akhtar	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
43.	VS Paricker	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
44.	PU Shejwal	VRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
45.	GD Kamble	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
46.	MR Apte	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
47.	GN Purandare	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
48.	BJ Samuel	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
49.	GU Dharmadhikari	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
50.	MN Adya	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
51.	SK Chaugule	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
52.	MV Rajopadhye	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
53.	Thomas John	HEMRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-

1	2	3	4	5	6
54.	SV Ramaprasad	HEMRL TO 'B'	TO 'C'		Rs. 10,000-325-15,200/-
55.	KS Kulkarni	HEMRL TO 'B'	TO 'C'		-Do-
56.	PD Kshirsagar	HEMRL TO 'B'	TO 'C'		-Do-
57.	SV Shirwalkar	HEMRL TO 'B'	TO 'C'		-Do-
58.	SB Adhatrao	ARDE TO 'A'	TO 'B'		Rs. 8,000-275-13,500/-
59.	AB Taru	ARDE TO 'A'	TO 'B'		-Do-
60.	SS Kale	ARDE TO 'A'	TO 'B'		-Do-
61.	CR Ishwar Rao	ARDE TO 'A'	TO 'B'		-Do-
62.	SR Nehalia	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
63.	PD Bombe	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
64.	DS Wani	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
65.	VK Taur	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
66.	VG Sadakale	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
67.	SMI Bagwan	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
68.	CN Divekar	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
69.	VD Gaikwad	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-
70.	SN Erande	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		-Do-

The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 05 Sep 2005 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Lab/ Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5	6
	(S/Shri/Smt.)				
01.	VL Kshirsagar	HEMRL TO 'A'	TO 'B'		Rs. 8,000-275-13,500/-

2. The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to To 'A' w.e.f. 01 Sep 2005 (F/N) :—

Sl. No.	Name	Lab/ Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5	6
	(S/Shri/Smt.)				
01.	DG Rokade	ARDE STA 'C'	TO 'A'		Rs. 7,450-225-11,500/-
02.	BR Jadhav	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
03.	SV Deshpande	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
04.	VV Agnihotri	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
05.	MR Marathe	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
06.	CD Belhe	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
07.	SP Avachat	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
08.	SL Lokhande	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-

1	2	3	4	5	6
09.	SK Khetmar	ARDE STA 'C'	TO 'A'		Rs. 7,450-225-11,500/-
10.	SS Dixit	ARDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
11.	Deep Prakash Srivastava	HEMRL STA 'C'	TO 'A'		-Do-
12.	Prasad Menon	HEMRL STA 'C'	TO 'A'		-Do-
13.	NG Waghmare	HEMRL STA 'C'	TO 'A'		-Do-
14.	Sudhir Laxman Jawale	HEMRL STA 'C'	TO 'A'		-Do-
15.	RK Kashyap	HEMRL STA 'C'	TO 'A'		-Do-
16.	VN Khan	RDEE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
17.	HS Karkar	RDEE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
18.	AN Ghadge	RDEE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
19.	RR Bhalsingh	VRDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
20.	VP Sole	VRDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
21.	GM Gawade	VRDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
22.	MR Adep	VRDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
23.	RR Tawale	VRDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
24.	AT Shaikh	VRDE STA 'C'	TO 'A'		-Do-
25.	AR Gawde	IAT STA 'C'	TO 'A'		-Do-
26.	S Seshadri	HEMRL TA 'C'	TO		-Do-

BB SHARMA  
Dy. Dir. (Pers-1)

#### AIR BRANCH

No. 484, Dated 5.9.2006.—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

NV Tyagi (12765) F(P), 01.06.2005

To be Substantive Air CMDE

NAK Browne (13129), F(P), 29.06.2001

D Kukreja (13130), F(P), 12.07.2001

M John (13131), F(P), 08.10.2001

KK Nohwar (13132), F(P), 08.10.2001

SK Jayaswal (13134), F(P), 08.10.2001

AS Karnik (13140), F(P), 08.10.2001

R Pratap (13146), F(P), 03.12.2001

Ajit Singh (13147), F(P), 03.12.2001

Air CMDE (ACTG) PB Patel (14555) F(P), 15.05.2006/02.01.2006 (for Seniority Purpose Only)

(His name will appear between Air CMDES D. Singh (14553) F(P) and J. Kumbat (14558) F(P) in the Combined Gradation List)

To be Substantive GP Capt (Flying Branch)

GP Capt (ACTG) SH Rath (15726), F(P), 01.04.2005

(His name will appear between GP Capts S Chandrasekhar (15717) F(P) and BK Dash (15876) F(P) in the Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) RK Sharma (16050), F(P), 01.04.2005

(His name will appear between GP Capts GN Moorthy (15890) F(P) and R Kapur (16054) F(P) in the Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) V Raghavan (16393), F(P), 01.04.2005

(His name will appear between GP Capts P Jaiswal (16232) F(P) and SY Koshe (16400) F(P) in the Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) SK Ghotia (16575), F(P), 05.04.2005

(His name will appear between GP Capts V Sharma (16572) F(P) and SK Dabral (16598) F(P) in the Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) PW Ambekar (16600), F(P), 16.04.2005

(His name will appear between GP Capts SK Dabral (16598) F(P) and R Malhotra (16601) F(P) in the Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) PS Randhawa (15035), F(P), 01.10.2001

(His name will appear between GP Capts R Mahadevan (15033) F(P) and NP Singh (15036) F(P) in the Combined Gradation List)

#### AE BRANCH

To be Substantive Air CMDE

AIR CMDE (ACTG) SK Puri (13716), AE(L), 01.03.2006

(His name will appear between Air CMDES PP Ganda (13705) AE(L) and BK Murali (13728) AE(M) in the Combined Gradation List)

#### LGS BRANCH

To be Substantive Air CMDE

A/C (ACTG) VKS Ramesh (13102), LGS, 02.05.2005

A/C (ACTG) A Singh (13409), LGS, 02.01.2006

A/C (ACTG) DB Ajaonkar (13413), LGS, 20.02.2006

To be Substantive GP Capt (LGS Branch)

GP Capt (ACTG) VKS Ramesh (13102), LGS, 01.12.1997

KV SHANKAR

Jt. Dir. of Personnel (Officers)-2(B)

No. 485, dated 06.09.2006.—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

##### ADM BRANCH

Wing Commander to be Substantive GP Capt (TS)

RK Misra (13001), IC Jamir (13520), HS Mishra (13651), JS Nanda (13653), BS Dash (13879), BS Sharma (14373), O Singh (14375), AK Sehgal (14376), GS Sinha (14378), HS Sodhi (14384), AK Johri (14387), SP Kute (14388), CP Ganapathy (14396), SP Singh (14399), NN Malhotra (14401),

RS Chhatwal (14408), AS Yadav (14474), MK Mishra (14476), S Saxena (14482), DS Sangotra (14484), S Alam (14489), VS Sharma (14490), AK Chadda (14491), A Krishna (14499), ML Tewani (14500), AK Srivastava (14698), VK Singh (14700), SK Sharma (14703), HV Singh (14709), NK Verma (14725), RJ Srivastava (14726), BR Sangwan (14727), A Kalim (14729), MN Saxena (14737), VK Karpal (14738), R Anal (14740), MA Khan (14746), A Singh (14925), RK Bali (14931), AB Sharma (14933), SA Hasan (14934), K Balasubramanian (14936), S Bajaj (14942), HB Sharma (14944), R Sharma (14945), MH Rehmankhan (14946), AK Sood (14950), V Sahgal (15040), CRR Sastry (15228), DK Hallan (15230), GSC Nair (15231), AK Chaturvedi (15232), TK Bhatara (15233), RK Srivastava (15234), RK Sharma (15240), SP Goyal (15241), PKN Garde (15251), Sudhanshu (15333), PM Chitnis (15336), SP Singh (15345) w.e.f. 16 Dec 2004.

RN Koshy (15582), HS Nair (15584), B Patnaik (15585), VP Agarwal (15588), RK Srivastava (15594), PA Nair (15595), PSS Bist (15596), A Singh (15598) w.e.f. 30 Dec 2004.

##### ADM BRANCH

Squadron Leader to be substantive Wing Commander

AK Awasthi (21685), RK Dubey (21686), P Gopinathan (21687), AAU Khan (21689), MP Singh (21690), B Singh (21693), RS Choudhary (21694), P Mohan (21695), SS Rakhra (21697), MRG Krishnan (21700), RP Singh (21707) w.e.f. 01 Feb 2005.

R Dubey (17064), Y Bagga (17385), AK Chatterjee (17387), SK Naithani (17503), S Murali (17506), IB Singh (17735), C Rajagopalan (17753), P Boovaragan (17764), KSV Bhupesh (17766), PK Joshi (17852), R Bhargave (17880), M Bapiraju (17888), IM Asif (17893), V Mohandas (17897), PK Borah (17899), A Senapati (17900), V Malik (18133), RK Gupta (18137), NP Ragesh (18139), M Srivastava (18142), D Sharma (18143), G Antony (18145), AK Roy (18148), KS Roy (18154) w.e.f. 16 Dec 2004.

WG CDR (Time Scale) to be Substantive Wing Commander

T Singh (17134), wef 16 Dec 2004

##### F(P) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wing Commander

D Bhatia (22124), wef 19 Dec 2005

##### AE(L) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wing Commander

RK Verma (21191), wef 16 Dec 2004

##### AE(L) BRANCH

Flt LT to be Substantive Sqn LDR

Sushil Rai (25473), wef 16 Dec 2004

S. SRIVASTAV  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

## (ARMY BRANCH)

No. 486, Dated 6th September 2006.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

- (IC-29983) Col PK Ebby, EME, 16.05.1999 (AN)  
 (IC-31078) Lt Col (SEL) PR Khandekar, EME, 29.04.1999 (AN)  
 (IC-33917) Col Uthappa Konerira Aiyappa, EME, 01.08.2005 (FN)  
 (IC-30929) Col (TS) Narendera Singh Rathore, INF, 30.07.2005 (AN)  
 (IC-30719) Col Shivaji Ranjan Ghosh, INF, 01.09.2005 (AN)

- (IC-35933) Col (SEL) Arun Dhar SM, INF, 10.07.2005 (AN)  
 (IC-34566) Lt Col Mukesh Kumar, INF, 11.05.2005 (AN)  
 (IC-25608) Col (TS) Tamal Kumar Sircar, M/INF, 10.07.2005 (AN)  
 (IC-37124) Col (TS) Rekhi Madanjit Singh, INF, 15.08.2005 (FN)  
 (IC-42351) Lt Col SS Grewal, ASC, 07.07.2005 (AN)  
 (IC-27525) Col (TS) Shyam Murari Singh, AOC, 03.07.2005 (AN)  
 (IC-36247) Lt Col (SEL) Sebastian Kumar, INT, 17.06.2005 (AN)  
 (IC-36452) Col (TS) Gurinder Singh, SIGS, 30.06.2005 (AN)

RK SHARMA  
 Jt. Dir.  
 MS/PR